



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: www.dfccil.com

No. 2019/HQ/Admin/RTI-838

New Delhi: 17.01.2020

Sh. Neeraj Verma
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 10.12.19 received through DOPT.

The information received is provided herewith as under;

S.No	Point	Information sought for	Information provided
1.	1	Refer the original application dt. 10.12.19	Bond Policy of DFCCIL is attached.
2.	2	-do-	Not available <i>on record.</i>
3.	3	-do-	Yes.
4.	4	-do-	Bond Policy of DFCCIL is attached.
5.	5	-do-	An DFCCIL employee can resign from DFCCIL by submitting his resignation. The Competent Authority will accorded his approval after due procedure. The notice period for resignation is minimum 3 months or pay in lieu thereof. In addition to this the employee who wish to resign from DFCCIL has to clear all the pending due if any.

Appellate Authority's name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M./Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. HQ/HR/BOND POLICY (201801597)

Dated: 29.05.2019

Circular No..11. /2019

Sub:- Amendment in the existing Bond Policy.

The Board of Directors (BoD) in its 68th Meeting held on 16.04.2019 has approved amendment in the relevant provisions of existing policies on Service Agreement-cum-Bond and Forwarding of Applications, as given under:-

S.No.	Existing Bond Policy (Applicable to Direct Recruits & Immediate/Permanent Absorption)			Approved amendments in Bond Policy (Applicable to Direct recruits)		
	Category	Period	Amount (in Rs.)	Category	Period	Amount (in Rs)
1	DGM & Above	5 yrs	10 lacs	Executive (E0) level to AM (E 3)	3 yrs	04 lacs + GST
2	Manager & AM	5 yrs	8 lacs	Below E0 level (Jr. Executive/ MTS)	3 yrs	02 lacs + GST
3	Below AM	5 yrs	6 lacs			

- For all employees inducted through Immediate Absorption basis, Bond amount shall be Rs. 3.0 lakhs + GST.
- No bond is required for employees inducted through Permanent Absorption basis.
- All employees shall have to serve minimum period of 3 years irrespective of their mode of induction.
- If an employee leaves the company during the bond period on completion of 02 years' service, proportionate bond amount to be recovered with the approval of MD only.
- In regard to forwarding of applications for outside employment, the same shall be forwarded as per DOPT guidelines.
- The bond is transferable.
- The revised policy shall be effective from the date of notification of the instructions.
- The revised policy shall be applicable to the existing employees also.

contd.../-

(from pre-page)


2.1 The items (e) i.e. forwarding of applications for outside employment as per DoPT guidelines and (f) i.e. bond is transferable, shall be governed as per follows:

i) **Forwarding of applications:** Applications of DFCCIL employee for outside employment shall be forwarded as per DoPT guidelines contained in their OM No. 28011/1/2013-Esttt (C) dated 23.12.2013 and further instructions issued from time to time.

ii) **Transfer of bond:** The instructions of DPE contained in their OM No. 15(2)/2003-DPE(GM)/GL-57 dated 29.07.2004 and further instructions issued from time to time regarding transfer of bond in respect of employees of PSUs who leave the services of one undertaking to join another Undertaking/Government will be applicable.

3. Individual cases decided earlier will not be re-opened/reviewed on the basis of above amendment.

4. This issues with the approval of Competent Authority.



(Amit Kumar)
DGM/HR

Email to:-

1. Secretary to MD- For kind information of MD.
2. Dir. (Infra), Dir. (OP&BD), Dir. (Fin.) & Dir. (PP) and CVO.
3. ED/WDFC, ED/EDFC, All GGMs/GMs/and CGMs.
4. All HR Officials.
5. Company Secretary.
6. IT Cell for display on DFCCIL's Intranet portal.

**परिपत्र 11 / 2019****विषय: वर्तमान बॉन्ड नीति में संशोधन**

निदेशक मंडल ने दिनांक 16.04.2019 को आयोजित अपनी 68 वीं बैठक में सेवा अनुबंध - बॉन्ड एवं आवेदनों के अग्रेषण की वर्तमान नीतियों के सम्बंधित प्रावधानों में संशोधनों का अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	वर्तमान बॉन्ड नीति (सीधे भर्ती एवं तत्काल / स्थाई समावेशन हेतु लागू)			बॉन्ड नीति में अनुमोदित संशोधन (सीधे भर्ती हेतु लागू)		
	वर्ग	अवधि	राशि रु. में	वर्ग	अवधि	राशि रु. में
1	उप महाप्रबंधक एवं उसके ऊपर	05 वर्ष	10 लाख	कार्यकारी(ई0) स्तर से सहा. प्रबंधक (ई-3)	03 वर्ष	04 लाख + जी एस टी
2	प्रबंधक एवं सहा. प्रबंधक	05 वर्ष	08 लाख	ई 0 स्तर से नीचे (कनिष्ठ कार्यकारी/ एम् टी एस)	03 वर्ष	02 लाख + जी एस टी
3	सहा.प्रबंधक के नीचे वाले	05 वर्ष	06 लाख			

- अ) तत्काल समावेशन के आंधार पर आए सभी कर्मचारियों के लिए बॉन्ड राशि तीन लाख +जीएसटी निर्धारित की जाएगी।
- आ) स्थायी समावेशन आधार के माध्यम से आए कर्मचारियों के लिए कोई भी बॉन्ड आवश्यक नहीं है।
- इ) सभी कर्मचारियों को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करनी हैं, चाहे वे किसी भी माध्यम से आए हों।
- ई) यदि एक कर्मचारी कंपनी के लिए दो वर्ष की सेवाएं प्रदान करने पर बॉन्ड अवधि के दौरान कार्य छोड़ता है, तो केवल प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से ही आनुपातिक बॉन्ड राशि की वसूली की जाएगी।
- उ) बाह्य नियोजन हेतु आवेदनों के अग्रेषण के संबंध में, उनको डीओपीटी मार्गदर्शन के अनुसार अग्रेषित किया जाएगा।
- ऊ) बॉन्ड हस्तातरणीय है।
- ऋ) संशोधित नीति, अनुदेशों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।
- ल) संशोधित नीति वर्तमान कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

2.1 मर्दे (उ) जैसे डीओपीटी मार्गदर्शनों के अनुसार बाह्य नियोजन के लिए आवेदनों का अग्रेषण एवं (ऊ) जैसे बॉन्ड हस्तातरणीय है, निम्न अनुसार शासित होंगे:

- i) आवेदनों का अग्रेषण: बाह्य नियोजन के लिए डीएफसीसीआइएल कर्मचारियों के आवेदनों को कार्यालय ज्ञापन संख्या 28011/1/2013 स्था. (सी) दिनांक 23.12.2013 में निहित डीओपीटी मार्गदर्शनों और समय-समय पर जारी आगे के अनुदेशों के अनुसार अग्रेषित किया जाएगा।

क्रमशः....



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

...2...

ii) बॉन्ड का हस्तांतरण: एक उपक्रम की सेवा छोड़कर अन्य उपक्रम/ सरकार में कार्यग्रहण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बॉन्ड हस्तांतरण से संबंधित मामलों में, डीपीई कार्यालय जापान संख्या 15(2)/2003-डीपीई (महा.प्रब.)/जीएल-57 दिनांक 29.07.2004 में निहित अनुदेश एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

3. व्यक्तिगत मामलों में जो निर्णय पहले से लिए जा चुके हैं, उनको उक्त संशोधनों के आधार पर पुनः खोला/समीक्षा नहीं की जाएगी।

4. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अमित

(अमित कुमार)

उप महाप्रबंधक/मा.सं.

ईमेल :

1. सचिव, प्रबंध निदेशक- प्रबंध निदेशक के सादर सूचनार्थ
2. निदेशक/अवसंरचना, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, निदेशक/वित्त, निदेशक/परियोजना नियोजन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. कार्यकारी निदेशक / पश्चिमी डीएफसी/ कार्यकारी निदेशक/पूर्वी डीएफसी, सभी समूह महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक और सभी मुख्य महाप्रबंधक
4. सभी मानव संसाधन अधिकारी/ कर्मचारी
5. कंपनी सचिव
6. सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, डीएफसीआईएल के इंटरनेट पोर्टल पर पर दर्शाने हेतु

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: पांचवा तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110001

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: +91-11-23454700, Fax: 011-23454701 Web: www.dfccil.gov.in CIN: U 60232 DL 2006 GOI 155068



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उपक्रम)

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

No.: HQ/HR/3/Prom. Pol/13

Dated:28.05.2013

Sub: "Service Agreement-cum-Bond" to serve DFCCIL for a minimum period of 5 years in respect of candidate joining on the basis of Permanent/Immediate Absorption as well as through Open Market Recruitment.


The Board of Directors (BoD) in their 38th meeting held on 29.04.2013 has approved insertion of a fresh provision in DFCCIL's Permanent/Immediate Absorption Policy and a fresh provision in the Open Market Recruitment Policy, relating to "Service Agreement-cum-Bond" to serve DFCCIL for a minimum period of 5 years. The fresh proviso as approved by BoD to be inserted in the respective policies are as under:

"Rule-4(d)- Permanent/Immediate Absorption Policy - HR Manual (Chapter-III).

The candidates joining DFCCIL on Permanent/Immediate Absorption basis on or after 01.04.2013 will have to execute a "Service agreement-cum-Bond" to serve DFCCIL for a minimum period of Five (05) years from the date of joining, failing which, such candidates would have to indemnify DFCCIL for an amount equivalent to one year of current salary i.e. (current basic pay + DA) X 12 only, subject to minimum of Rs. 10.Lakh - for GM/AGM/JGM/DGM, Rs. 08 Lakh- for Manager/AM and Rs.06 Lakh for all below AM. For this purpose the candidates have to sign a Bond in the appropriate format at the time of joining DFCCIL. Moreover, the application of such an absorbee for outside employment will not be forwarded during the initial period of Three (03) years from the date of joining DFCCIL."


"Rule - (k)- Open Market Recruitment Policy - HR Manual (Chapter-II).

For the direct recruits joining from open market (on 2 years probation), a bond agreement is already being obtained from them to refund the expenses incurred by the company towards the pay and allowances, training and travelling expenses, etc., in the event of their failure to complete the probation to the satisfaction of the company. Such bonds will be executed subject to minimum amount and period to serve DFCCIL as prescribed for absorbee."


(Pramila H Bhargava)
General Manager(HR)

E-mail to:

- 1) Secretary to MD - for kind information of MD.
- 2) Dir.(Infra), Dir.(PP), Dir.(Fin.), Dir.(OP & BD) and CVO - for information.
- 3) All GGMs, GMs and CPMs - for information.
- 4) GGM(Fin.), JGM(HR), DGM/HR-III, DGM(Fin.)- for necessary action.
- 5) Company Secretary - for information.


30/5/2013
mu. mu